

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1050
उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

आदर्श शिक्षा ऋण योजना

†1050. डॉ. सी. एम. रमेश:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छात्रों को दिए जाने वाले शिक्षा ऋण के लिए तैयार की गई आदर्श शिक्षा ऋण योजना की मुख्य विशेषताएं, लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) गत दस वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में शिक्षा ऋण संबंधी खातों, आवेदनों की संख्या कितनी है और संवितरित ऋण की कुल राशि का वर्ष-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्या लक्ष्मी पोर्टल छात्रों को निर्बाध रूप से शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता कर रहा है;

(घ) क्या यह सच है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अगले उच्च अधिकारी की सहमति लिए बगैर शिक्षा ऋण को अस्वीकार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): ऋण, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) का विषय है। आदर्श शिक्षा ऋण योजना (एमईएलएस) भारत और विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य ऋण चुकौती के लिए छूट आधारित शर्तों और विभिन्न पाठ्यक्रमों की कवरेज की पेशकश करके समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना है। इस योजना को समय-समय पर संशोधित किया

गया है और इसका नवीनतम संशोधन एमईएलएस, 2022 है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- i. यह योजना आवश्यकता आधारित शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती है।
 - ii. 7.50 लाख रुपये तक के ऋण के लिए किसी संपार्श्विक सुरक्षा/तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। ऋण गारंटी कवरेज को 'शिक्षा ऋण संबंधी ऋण गारंटी निधि योजना' (सीजीएफएसईएल) के अंतर्गत विस्तारित किया गया है।
 - iii. 4 लाख रुपये तक के ऋण पर कोई मार्जिन नहीं।
 - iv. सभी मामलों में अध्ययन अवधि के साथ एक वर्ष तक स्थगन अवधि की अनुमति है।
 - v. सभी ऋणों के लिए पुनर्भुगतान अवधि (स्थगन के बाद) 15 वर्ष तक उपलब्ध है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी मामले के आधार पर 7.5 लाख रुपये से अधिक के लिए जमानत-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं।

(ख): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य में विगत दस वर्षों के दौरान वर्षवार और बैंकवार आवेदनों की संख्या और वितरित ऋण की कुल राशि https://www.education.gov.in/parl_ques पर देखी जा सकती है।

(ग): एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत 2-पृष्ठ आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह पोर्टल सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए है। इन सभी उपायों का उद्देश्य योजना के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना तथा ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के छात्रों सहित पात्र छात्रों को परेशानी मुक्त शिक्षा ऋण प्राप्त करने में मदद करना है।

(घ) और (ङ): आदर्श शिक्षा ऋण योजना के अनुसार, यदि कोई ऋण आवेदन अस्वीकृत होता है, तो उसे अगले उच्च प्राधिकारी की सहमति से किया जाएगा और छात्र को अस्वीकृति का कारण बताते हुए सूचित किया जाएगा।

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य डॉ. सी. एम. रमेश द्वारा 'आदर्श शिक्षा ऋण योजना' के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1050 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक (दिसंबर 2024 तक) आंध्र प्रदेश में शिक्षा ऋण संबंधी आवेदनों की संख्या और वितरित राशि (राशि करोड़ रुपये में)																					
		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25 (दिनांक 31.12.24 तक)	
क्रमांक	बैंक का नाम	प्राप्त आवेदन	वितरित राशि	प्राप्त आवेदन	वितरित राशि	प्राप्त आवेदन	वितरित राशि	प्राप्त आवेदन	वितरित राशि	प्राप्त आवेदन	वितरित राशि	प्राप्त आवेदन	वितरित राशि	प्राप्त आवेदन	वितरित राशि	प्राप्त आवेदन	वितरित राशि	प्राप्त आवेदन	वितरित राशि	प्राप्त आवेदन	वितरित राशि
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	967	39.48	960	41.76	818	41.71	933	51.57	1315	140.13	692	93.86	1158	148.91	1449	237.49	1127	220.87	868	135.00
2	बैंक ऑफ इंडिया	458	21.79	406	18.59	675	20.44	618	19.73	556	18.22	399	15.44	846	30.21	1229	73.64	985	88.13	558	55.40
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	74	3.86	63	5.22	90	6.49	53	4.64	70	6.33	61	6.20	107	9.48	193	17.66	216	27.34	144	16.57
4	केनरा बैंक	3668	98.75	2656	144.61	2811	137.30	2429	146.95	2555	170.38	1282	146.18	3407	211.72	5224	411.72	4718	523.84	3434	362.25
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	बैंक के सी.बी.एस. में डेटा केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है।		340	10.99	337	21.93	115	20.99	170	16.63	146	17.96	231	25.53	443	54.23	427	66.15	333	56.14
6	इंडियन बैंक	807	44.97	835	47.60	1014	54.69	924	64.05	667	69.24	215	73.80	561	68.31	836	122.36	657	137.25	423	86.55

7	इंडियन ओवरसी ज बैंक	408	14.74	278	10.22	508	12.31	430	15.93	437	13.36	189	17.23	314	12.90	401	32.01	308	31.40	234	26.69
8	पंजाब एंड सिंध बैंक	11	0.68	14	0.75	14	0.85	24	2.62	20	1.79	43	1.39	56	2.19	52	4.41	36	7.05	20	3.97
9	पंजाब नेशनल बैंक	365	24.23	423	26.18	435	30.86	278	28.63	378	37.01	332	25.11	524	36.56	680	58.17	558	63.03	384	37.40
10	भारतीय स्टेट बैंक	4603	330.24	4244	525.49	5853	343.44	8942	412.59	8780	632.80	5940	475.12	9391	670.45	14204	1027.40	10074	1151.66	9901	735.65
11	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	966	25.46	767	17.88	894	23.78	823	26.53	650	85.80	1046	164.80	2382	215.67	4446	383.65	5539	624.86	4771	460.08
12	यूको बैंक	130	635.24	125	563.77	96	378.31	135	454.88	162	685.22	93	5.16	100	8.46	150	12.46	131	12.81	74	6.20
कुल		12457	1239.44	11111	1413.07	13545	1072.11	15704	1249.11	15760	1876.92	10438	1042	19077	1440	29307	2435	24776	2954	21144	1982